

प्रकाशनार्थ - आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में छठी पातशाही मीरी पीरी के मालिक धन-धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश पर बहुत धूमधाम एवं श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। प्रातः काल से ही मुख्य ग्रंथी भाई राज सिंह जी ने नितनेम सुखमनी साहब का पाठ किया, तदुपरांत हजूरी रागी जत्थे भाई अमरजीत सिंह जी ने मनोहर कीर्तन किया। इसके उपरांत पंजाबी एकेडमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जीवनी के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी गुरु घर में मत्था टेकने आये जिन का भव्य स्वागत किया गया उन्हें गुरु घर का सिरोपा प्रदान किया गया इस अवसर पर डॉ हर्ष कुमार सिन्हा, श्री ओम प्रकाश सिन्हा, गायत्री परिवार से श्री दीनानाथ सिंह, श्री प्रवीण श्रीवास्तव, इंजीनियर मिन्नत, आकिब अंसारी, आदिल अमीन इत्यादि लोग आए जिन का स्वागत किया गया अरदास के उपरांत गुरु का अटूट लंगर वरताया गया।

उक्त पावन अवसर पर एक रक्तदान शिविर श्री गुरु गोरक्षनाथ ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया जिसमें श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी ने 48 वीं बार रक्तदान किया।

रक्तदाताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए डाक्टर ममता जसवाल ने कहा कि जिन रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है उन्होंने सबसे बड़ा मानव सेवा किया है तथा बहुत ही पुनित कार्य किया है उन लोगो को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

इस अवसर पर जगनैन सिंह नीटू, अरविन्द गुप्ता, अजय गुप्ता, नसरुद्दीन, सुमित, आनन्द, गगन सहगल, दीनानाथ सिंह, राज किशोर, अरून मिश्रा, विवके गुप्ता जी सहित कुल 21 लोगों ने रक्तदान किया किया पूरे कार्यक्रम का संचालन जगनैन सिंह नीटू एवं धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने किया। इस अवसर

पर मुख्य रूप से जगनैन सिंह नीटू, अरविन्द गुप्ता, अजय गुप्ता, नसरुद्दीन, सुमित, आनन्द, गगन सहगल, दीनानाथ सिंह, राज किशोर, अरून मिश्रा, विवके गुप्ता जी सहित कुल 21 लोगों ने रक्तदान किया किया पूरे कार्यक्रम का संचालन जगनैन सिंह नीटू इत्यादि लोग उपस्थित थे।